



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020  
पौष 10, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/1053-2020-4-123(फतेहपुर)-2014  
लखनऊ, 31 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ10-559

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राज कुमार, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 62/2961/33-3-2020-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद फतेहपुर की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/286-2015-4-123(फतेहपुर)-2014, दिनांक 4 फरवरी, 2015 में विकास खण्ड असोथर की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करता हूँ।

## सारणी

## जनपद का नाम—फतेहपुर

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र०सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	असोथर	असोथर	असोथर		असोथर	—	नगर विकास विभाग—1 की अधिसूचना संख्या—2514/9-1-2020—23टी0ए0/17, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पंचायत—असोथर में सम्मिलित किया गया ।
2	असोथर	प्रेममऊ कटरा	प्रेममऊ कटरा		असोथर	—	नगर विकास विभाग—1 की अधिसूचना संख्या—2514/9-1-2020—23टी0ए0/17, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पंचायत—असोथर में सम्मिलित किया गया ।
3	असोथर	बौण्डर	बौण्डर		असोथर	—	नगर विकास विभाग—1 की अधिसूचना संख्या—2514/9-1-2020—23टी0ए0/17, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पंचायत—असोथर में सम्मिलित किया गया ।
4	असोथर	कौण्डर	कौण्डर	1	असोथर	कौण्डर	कौण्डर
5	असोथर	सरायं खालिस	सरायं खालिस	2	असोथर	सरायं खालिस	सरायं खालिस
	असोथर		अन्दीपुर		असोथर		अन्दीपुर
6	असोथर	हरनवां	हरनवां	3	असोथर	हरनवां	हरनवां
7	असोथर	रामनगर कौहन	रामनगर कौहन	4	असोथर	रामनगर कौहन	रामनगर कौहन
8	असोथर	घाटमपुर	घाटमपुर	5	असोथर	घाटमपुर	घाटमपुर
	असोथर		देईमऊ		असोथर		देईमऊ
9	असोथर	जरौली	जरौली	6	असोथर	जरौली	जरौली
10	असोथर	ऐझी	ऐझी	7	असोथर	ऐझी	ऐझी

1	2	3	4	5	6	7	8
11	असोथर	सरकण्डी	सरकण्डी	8	असोथर	सरकण्डी	सरकण्डी
12	असोथर	देवलान	देवलान	9	असोथर	देवलान	देवलान
13	असोथर	लिलरा	लिलरा	10	असोथर	लिलरा	लिलरा
14	असोथर	बहादुरपुर	बहादुरपुर,	11	असोथर	बहादुरपुर	बहादुरपुर,
	असोथर		गोकन		असोथर		गोकन
15	असोथर	परसेठा	परसेठा	12	असोथर	परसेठा	परसेठा
16	असोथर	फरीदाबाद टिकरी	फरीदाबाद टिकरी	13	असोथर	फरीदाबाद टिकरी	फरीदाबाद टिकरी
17	असोथर	लौगांव	लौगांव	14	असोथर	लौगांव	लौगांव
18	असोथर	चककाजीपुर	चककाजीपुर	15	असोथर	चककाजीपुर	चककाजीपुर
19	असोथर	भौली	भौली	16	असोथर	भौली	भौली
	असोथर		दरौली		असोथर		दरौली
	असोथर		संवारा		असोथर		संवारा
20	असोथर	कंधिया	कंधिया	17	असोथर	कंधिया	कंधिया
21	असोथर	जमलामऊ	जमलामऊ	18	असोथर	जमलामऊ	जमलामऊ
22	असोथर	बेसड़ी	बेसड़ी	19	असोथर	बेसड़ी	बेसड़ी
23	असोथर	बेरुई	बेरुई	20	असोथर	बेरुई	बेरुई
24	असोथर	कोर्राकनक	कोर्राकनक	21	असोथर	कोर्राकनक	कोर्राकनक
25	असोथर	ओती	ओती	22	असोथर	ओती	ओती
	असोथर		समदपुर		असोथर		समदपुर
26	असोथर	करैहां	करैहां	23	असोथर	करैहां	करैहां
	असोथर		चक पैगम्बरपुर		असोथर		चक पैगम्बरपुर
27	असोथर	ललौली	ललौली	24	असोथर	ललौली	ललौली
28	असोथर	अढ़ावल	अढ़ावल	25	असोथर	अढ़ावल	अढ़ावल
29	असोथर	उरौली	उरौली	26	असोथर	उरौली	उरौली
30	असोथर	रेंय	रेंय	27	असोथर	रेंय	रेंय
31	असोथर	कोंडार	कोंडार	28	असोथर	कोंडार	कोंडार
32	असोथर	दसौली	दसौली	29	असोथर	दसौली	दसौली
33	असोथर	मुत्तौर	मुत्तौर	30	असोथर	मुत्तौर	मुत्तौर
34	असोथर	सिंधाव	सिंधाव	31	असोथर	सिंधाव	सिंधाव
35	असोथर	घघौरा	घघौरा	32	असोथर	घघौरा	घघौरा
36	असोथर	सैबसी	सैबसी	33	असोथर	सैबसी	सैबसी
	असोथर		जमेनी		असोथर		जमेनी
37	असोथर	उमरपुर	उमरपुर	34	असोथर	उमरपुर	उमरपुर
38	असोथर	दतौली	दतौली	35	असोथर	दतौली	दतौली
39	असोथर	गढ़ी	गढ़ी	36	असोथर	गढ़ी	गढ़ी
40	असोथर	मवइया	मवइया	37	असोथर	मवइया	मवइया

1	2	3	4	5	6	7	8
41	असोथर	जिवकरा	जिवकरा	38	असोथर	जिवकरा	जिवकरा
	असोथर		सतखरा		असोथर		सतखरा
42	असोथर	सरवल	सरवल	39	असोथर	सरवल	सरवल
43	असोथर	सेवरामऊ	सेवरामऊ	40	असोथर	सेवरामऊ	सेवरामऊ
44	असोथर	पैगम्बरपुर बकरी	पैगम्बरपुर बकरी	41	असोथर	पैगम्बरपुर बकरी	पैगम्बरपुर बकरी
45	असोथर	बरुहा	बरुहा	42	असोथर	बरुहा	बरुहा
46	असोथर	सुसवन बुजुर्ग	सुसवन बुजुर्ग	43	असोथर	सुसवन बुजुर्ग	सुसवन बुजुर्ग
47	असोथर	धरमपुर सुसवन खुर्द	धरमपुर सुसवन खुर्द	44	असोथर	धरमपुर सुसवन खुर्द	धरमपुर सुसवन खुर्द

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/286/2015-4/123(फतेहपुर)/2014, दिनांक 4 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
राज कुमार,  
निदेशक,  
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 699 राजपत्र-2021-(1377)-599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 58 सा० पंचायतीराज-2021-(1378)-132 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

699 RPH Fatehpur data 8d Pan raj folder